



प्रेस नोट

दिनांक-16-07-2022

जनपद अम्बेडकरनगर थाना अलीगंज पुलिस व स्वाट की संयुक्त टीम द्वारा जहरखुरानी कर सामान व पैसा चोरी करने वाले चार शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

दिनांक-16-07-2022 को थाना अलीगंज पुलिस टीम द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वाँछित व वारंटी अभियुक्त व श्रावणमास के दृष्टिगत शांति व्यवस्था डियूटी में कश्मीरिया तिराहे पर मौजूद थी कि थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 – 145/2022 धारा 379/328 भा.द.वि. व मु0अ0सं0 –146/2022 धारा 379/328 भा.द.वि. के वादी शहजादे पुत्र अली अहमद निवासी काजीपुरा थाना अलीगंज जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा फोन कॉल कर सूचना किया कि मैं अपने पिता के साथ मेडिकल कालेज सदरपुर से दवा लेने आया हूँ अभी-अभी हमने देखा कि जिन लोगों ने मुझे अल्टो कार में बैठाकर मेरे साथ जहर खुरानी की थी वह अल्टो कार नं0 – UP 50 G 5474 मारुति 800 रंग स्लेटी से सदरपुर से टाण्डा की तरफ तेजी से जा रहे हैं। इस सूचना पर थाना अलीगंज पुलिस व स्वाट की संयुक्त टीम बस्ती – आजमगढ हाईवे के पास पहुंचे तो सामने से उक्त गाड़ी आते दिखाई दी जिसको हाईवे पर आजमगढ के तरफ चढ़ते हुए मोड़ पर रोक लिया गया। मौके पर उक्त गाड़ी में कुल चार व्यक्तियों को दो अदद पिट्टू बैग एक काला, लालरंग व दूसरा ग्रे कलर व बैग में रखा इस्तेमाली कपड़े, दो अदद चोरी के मोबाइल 1. VIVO Y12S 2. VIVO T-1 5G, चार पत्ते लोराजेपाम (नशीली गोलियाँ) के टेबलेट 2Mg व एक अदद अल्टो कार नं- यूपी 50 जी 5474 मारुति 800 रंग स्लेटी के साथ गिरफ्तार किया गया।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उक्त गिरफ्तारकर्ता टीम के इस उल्लेखनीय कार्य के लिए 25000/- रुपए पुरस्कार देने की घोषणा गयी है।

विवरण पूछताछ- गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि हम लोग बसअड्डा, रेलवे स्टेशन व अन्य किसी ऐसे स्थान पर जहाँ आमजन किसी वाहन का इन्तजार करते हैं वाहन/सवारी का इन्तजार कर रहे व्यक्ति से पूछकर कहाँ जाना है उसी स्थान को खुद को जाता हुआ बताकर अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जाते थे और रास्ते में चाय या कुछ खाने के बहाने बेहोशी की दवा खिला कर किसी सुनसान स्थान पर ले जाकर सामान व रुपये लेकर गाड़ी से गिरा देते थे।

विवरण गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अंकित निषाद पुत्र हनुमान निषाद निवासी शम्भूपुर थाना अहिरौला जिला आजमगढ।

- 2- रामविनय निषाद पुत्र भोरिक निवासी हेतुगंज अलउवा थाना अहिरौला जनपद आजमगढ़ ।
- 3- अनीश उर्फ उनीश पुत्र स्व० अवधराम निषाद निवासी गयाशपुर थाना कन्धरापुरा जनपद आजमगढ़ ।
- 4- दिलीप निषाद पुत्र झीनक निषाद निवासी गयाशपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ ।

विवरण बरामदगी -

1. एक अदद अल्टो कार नं- यूपी 50 जी 5474 मारूति 800 रंग स्लेटी
2. दो अदद पिडू बैग एक काला, लालरंग व दूसरा ग्रे कलर व बैग में रखा इस्तेमाली कपड़े
3. दो अदद चोरी के मोबाइल 1. VIVO Y12S 2. VIVO T-1 5G
4. चार पत्ते लोराजेपाम (नशीली गोलियाँ) के टेबलेट 2Mg

विवरण गिरफ्तारकर्ता पुलिसटीम

1. उ०नि० रामविशाल सिंह थाना अलीगंज
2. उ०नि० जयकरन सिंह थाना अलीगंज
3. हे०का० शिवेन्द्र प्रताप सिंह थाना अलीगंज
4. का० रामअवधपाल थाना अलीगंज
5. का० अजय यादव थाना अलीगंज
6. का० इन्द्रपाल सिंह थाना अलीगंज